



HAMIRPUR POLICE



कोतवाली सदर

दिनांक 29.08.2022

कोतवाली सदर क्षेत्र अंतर्गत सिटी फॉरेस्ट में एक युवक-युवती से मारपीट व अमर्यादित व्यवहार कर वीडियो बनाने एवं एक अन्य वायरल वीडियो में महिला के साथ अभद्रता करने की घटना के कुल 08 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत करना है कि कोतवाली सदर क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 16.08.2022 को सिटी फॉरेस्ट में एक युवक-युवती से मारपीट व अमर्यादित व्यवहार कर वीडियो बनाने की घटना में कोतवाली सदर में मु0अ0स0-244/22, धारा-147/323/504/506/386/354ख आईपीसी व 67 आईटी एक्ट पंजीकृत कर 06 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, आरोपियों से पूछताछ के क्रम में उपरोक्त घटना में अन्य आरोपियों के भी नाम प्रकाश में आए थे जिनकी तलाश पुलिस टीम द्वारा की जा रही थी। दिनांक 23.08.2022 को एक अन्य वायरल वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकाश में आया जिसमें कुछ आरोपी एक महिला के साथ अभद्रता कर रहे थे। जिसके संबंध में कोतवाली सदर में मु0अ0स0-254/22, धारा-147/323/504/506/386/354/394/354ख आईपीसी व 67 आईटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा क्षेत्राधिकारी सदर एवं प्रभारी निरीक्षक को0 सदर को संबन्धित अभियुक्तों की पहचान कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था।

घटना के अनावरण हेतु कोतवाली पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई है कि सिटीफॉरेस्ट में हुई घटनाओं से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण अभी ब्रम्हा का डेरा, चन्दर के जंगल के पास मौजूद हैं। उपरोक्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर दबिस देकर मौजूद आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया गया तो आरोपियों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया गया, पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुए आवश्यक बल प्रयोग करके 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक ने अपना नाम 1)सफात ऊर्फ सबलू खान पुत्र बबलू निवासी कालपी चौराहा थाना कोतवाली नगर हमीरपुर बताया, जिसकी जामा तलाशी से 01

अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस तमंचा के चैम्बर में फसा हुआ व दो जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुये। दूसने ने अपना नाम 2)शानू पुत्र पंचा मुसलमान निवासी चन्द्रशेखर आजाद पार्क के पास नेहा नर्सिंग होम के आगे करबा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर बताया। मौके से 01 अभियुक्त दानिस पुत्र शहजादे निवासी गौरादेवी ईदगाह के पास थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर अंधैरे का फायदा उठाकर भाग गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध कोतवाली सदर में मु0अ0स0-260/21, धारा-307/504 आईपीसी व मु0अ0स0-261/22, धारा-3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त तीनों अभियुक्त सिटीफारेस्ट हमीरपुर की दोनों घटनाओं में सम्मिलित थे। उपरोक्त दोनों घटनाओं में अब तक 02 बाल अपचारी सहित कुल 08 को गिरफ्तार किया गया हैं, 03 अभियुक्त घटना में वांछित है शीघ्र गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम-

- 1)सफात ऊर्फ सबलू खान पुत्र बबलू निवासी कालपी चौराहा थाना कोतवाली नगर हमीरपुर
- 2)शानू पुत्र पंचा मुसलमान निवासी चन्द्रशेखर आजाद पार्क के पास नेहा नर्सिंग होम के आगे करबा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर
- 3)कन्हैया पुत्र राजेश शर्मा निवासी गौरा देवी थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर (जेल में निरुद्ध)
- 4)अरविंद निषाद पुत्र मनीराम निवासी गौरा देवी थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर (जेल में निरुद्ध)
- 5)प्रीतम कश्यप पुत्र मुन्ना लाल निवासी गौरा देवी थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर (जेल में निरुद्ध)
- 6)लखन खंगार पुत्र राजू खंगार निवासी गौरादेवी कोतवाली सदर हमीरपुर (जेल में निरुद्ध)
- 7)बाल अपचारी (बाल सुधार गृह)
- 8)बाल अपचारी (बाल सुधार गृह)

घटना में वांछित अभियुक्तों का नाम-

- 1)दानिस पुत्र शहजादे निवासी गौरादेवी ईदगाह के पास कोतवाली नगर हमीरपुर
- 2)खुशीराम निषाद पुत्र आत्माराम निवासी बृम्हा का डेरा कोतवाली नगर हमीरपुर
- 3)शीलू निषाद पुत्र खुशीराम निषाद निवासी बृम्हा का डेरा को0 नगर हमीरपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1)प्रभारी निरीक्षक दुर्गाविजय सिंह
- 2)व0उ0नि0 नन्द किशोर यादव
- 3)उ0नि0 मनोज कुमार पाण्डेय
- 4)उ0नि0 नीरज कुमार

- 5)उ0नि0 राजेश कुमार
- 6)का0 डेगराज
- 7)का0 निखिल कुमार
- 8)का0 आदित्य गुप्ता
- 9)का0 चन्द्रबीर

